



## Welcome to Carrington Health

Carrington Health प्रभावी, कुशल और नवीन स्वास्थ्य कार्यक्रम और सहभागिताएँ प्रदान करता है जिनके फलस्वरूप जिन लोगों को खतरा होता है उनमें और व्यापक समुदाय में अंतर पड़ता है।

इसका अर्थ है कि:

- हम व्यक्ति-विशेषों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं;
- हम व्यक्ति और परिवार पर केन्द्रित कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है;
- हम स्वास्थ्य एवं सामुदायिक क्षेत्र में दूसरों के साथ साझेदारी करते हैं ताकि घर के पास वहनीय सेवाएँ प्रदान की जा सकें;
- हमें दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान तथा उनकी जानकारी है और हम इनका स्वीकरण करते हैं; और
- हम रोकथाम और प्रारम्भिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों के द्वारा अपने समुदाय को अधिक स्वस्थ और अधिक खुशहाल जीवन के लिए योग्यताओं का निर्माण करने हेतु समर्थ बनाते हैं।

हम बच्चों और व्यस्कों दोनों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। हमारे पास अलाइड हेल्थ, बच्चों एवं परिवार के स्वास्थ्य संबंधी, परामर्शी और दंत सेवाएँ उपलब्ध हैं। हमारे पास डायबिटीज़ (मधुमेह रोग) सेवाएँ, दीर्घकालिक रोग से ग्रस्त होकर जीवन जीने में मदद लेने संबंधी सेवाएँ, सामाजिक समर्थन एवं रोकथाम कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं।

### दुभाषिए उपलब्ध हैं



यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत है तो हम इसकी व्यवस्था आपके लिए निःशुल्क करेंगे।

### हमारी सेवा का प्रयोग करने के लिए



अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की चर्चा करने, अपॉइंटमेंट (समय-नियुक्ति) करने और हमारी सेवाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में पता लगाने के लिए **9890 2220** पर हमें फोन करें।

### हमारी वेबसाइट को अनुवादित करें

हमारी वेबसाइट को अनुवादित किया जा सकता है – हमारे होम पेज के बायीं ओर स्थित इस ड्रॉप डाउन का चयन करके अपनी चुनिंदा भाषा का चयन करें

Google Translate द्वारा संचालित

### शुल्क

उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास हेल्थ केयर कार्ड होता है, या जो पेंशनभोगी होते हैं या फिर जिनकी आमदनी निम्न होती है। हम आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क के बारे में आपसे बात करेंगे।

### हम कहाँ स्थित हैं?

पता: 43 Carrington St, Box Hill. मुख्य रिसेप्शन दूसरी मंज़िल

नजदीक: Box Hill ट्रेन स्टेशन।

पार्किंग: सड़क के दूसरी ओर Box Hill सेंट्रो शॉपिंग सेंटर पर।

Carrington Health को ऑस्ट्रेलियाई एवं विक्टोरियाई सरकार से धन-राशि प्राप्त होती है।